

**प्रेस नोट दिनांक 02.11.2022**  
**थाना क्योलडिया जनपद बरेली ।**

**थाना क्योलडिया #bareillypolice द्वारा फूलचन्द्र की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छुपा देने वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक बांका गन्ना काटने वाला, एक लाठी बांस की बरामद ।**

थाना क्योलडिया पर दिनांक 01.11.2022 को वादी श्री राधेश्याम पुत्र श्री लोचन प्रसाद निवासी ग्राम गुलडिया लेखराज थाना क्योलडिया, बरेली द्वारा लिखित सूचना दी कि दिनांक 31.10.22 रात्रि लगभग 18.00 बजे अभियुक्तगण 1.महेन्द्र पुत्र नत्थूलाल राठौर 2.अनुज श्रीवास्तव पुत्र प्रमेश श्रीवास्तव 3.आकाश शर्मा पुत्र भगवानदास नि0गण ग्राम गुलडिया लेखराज थाना क्योलडिया जिला बरेली द्वारा वादी के पुत्र फूलचन्द्र को घर से ले जाकर जंगल में एक राय होकर बांके व लाठी से सिर में चोट पहुंचाकर मौके पर हत्या कर देना व शव को गन्ने के खेत में छुपा देने के सम्बन्ध में दी थी । जिसके आधार पर थाना क्योलडिया पर मु०अ०सं० 261/22 धारा 302,201,34 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये थे, जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना क्योलडिया पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों 1.महेन्द्र पुत्र नत्थूलाल राठौर 2.अनुज श्रीवास्तव पुत्र प्रमेश श्रीवास्तव 3. आकाश शर्मा पुत्र भगवानदास नि0 गण ग्राम गुलडिया लेखराज थाना क्योलडिया जिला बरेली को आज दिनांक 02.11.2022 को महेशपुरा चौराहे से गिरफ्तार किया गया तथा हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक बांका व एक लाठी अभियुक्तगणों से बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

- 1.महेन्द्र पुत्र नत्थूलाल राठौर निवासी ग्राम गुलडिया लेखराज थाना क्योलडिया जिला बरेली
- 2.अनुज श्रीवास्तव पुत्र प्रमेश श्रीवास्तव निवासी ग्राम गुलडिया लेखराज थाना क्योलडिया जिला बरेली
- 3.आकाश शर्मा पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम गुलडिया लेखराज थाना क्योलडिया जिला बरेली

**बरामदगी:-** आला कत्ल एक अदद बांका गन्ना काटने वाला, एक अदद लाठी बांस की ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-**

- 1.थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार थाना क्योलडिया, बरेली ।
- 2.उ0नि0 मो0 अब्बास थाना क्योलडिया,बरेली ।
- 3.उ0नि0 परवीन कुमार थाना क्योलडिया,बरेली ।
- 4.का0 2971 रनवीर सिंह थाना क्योलडिया,बरेली ।
- 5.का0 3234 निशान्त शर्मा थाना क्योलडिया,बरेली ।
- 6.का0 1526 सुमित शर्मा थाना क्योलडिया,बरेली ।